



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 09.10.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने अवैध शराब सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवम् परिवहन की रोकथाम व इसमें लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 08.10.2021 को क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में थाना श्रीनगर प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार द्वारा गठित उ0नि0 राजेन्द्र प्रकाश के नेतृत्व में टीम ने अभियान में शामिल होकर अभियुक्त सुखदेव पाल पुत्र बैजनाथ पाल उम्र 22 वर्ष को एक प्लास्टिक की बोरी में 30 अदद क्वाटर ठेका देशी शराब नाजायज के साथ भण्डरा तिगैला कस्वा श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया, बरामदा नाजायज देशी शराब के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुये थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 151/21 धारा 60 **EX ACT** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

सुखदेव पाल पुत्र बैजनाथ पाल उम्र 22 वर्ष नि0ग्राम मवई थाना श्रीनगर जिला महोबा

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

1. उ0नि0 राजेन्द्र प्रकाश
2. कां0 अनुज कुमार
3. कां0 अजमल महमूद





प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:- 09.10.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



जिलाधिकारी / पुलिस अधीक्षक महोबा की अध्यक्षता में थाना कबरई / खन्ना में सम्पन्न हुआ ' थाना दिवस '

आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत थाना अभिलेखों का किया गया अवलोकन, दिये गये आवश्यक निर्देश -

आज दिनांक 09.10.2021 को थाना दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी श्री सत्येन्द्र कुमार एवं पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में थाना कबरई तथा थाना खन्ना में थाना दिवस का आयोजन किया गया जहां पर फरियादियों से उनकी समस्याओं को मौके पर सुना गया तथा वहां मौजूद सम्बन्धित राजस्व और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत-प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिये गये। पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देते हुये कहा गया कि थाना दिवस में राजस्व और पुलिस विभाग से सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण आपसी सामंजस्य से सुनिश्चित किया जाये तथा लंबित प्रार्थना पत्रों का यथाशीघ्र निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात जिलाधिकारी / पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से आगामी त्यौहारों व विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत रजि0 नं0 8, त्यौहार रजि0, चुनाव रजिस्टर, महिला हेल्प डेस्क व अन्य थाना अभिलेखों का निरीक्षण कर कार्यालय में साफ-सफाई पर विशेष वरीयता देने के लिए कहा गया।

इसी क्रम में **ADM** श्री आर0एस0 वर्मा व **ASP** श्री आर0के0 गौतम की अध्यक्षता में थाना श्रीनगर व थाना चरखारी में थाना दिवस का आयोजन किया गया जिसमें फरियादियों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा गुणवत्तापूर्ण व समयवद्ध निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

इसके अतिरिक्त समस्त क्षेत्राधिकारीगण/थाना प्र0नि0/थानाध्यक्ष द्वारा जनपद के समस्त थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन कर प्राप्त प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण किया गया एवं शेष प्रकरण के सम्बन्ध में टीम गठित कर जांच हेतु मौके पर भेजी गई।



